

# **KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI URDU, ARABI-FARSI UNIVERSITY**

Sitapur-Hardoi Road bypass

Lucknow-226020

Phone : 0522-2774041, 0522-2774043

Fax : 0522-2774046

Email: upuafulucknow@gmail.com

Website: www.mkuafu.ac.in



**Vice Chancellor : Dr. Khan Masood Ahmad**  
**Registrar : Dr. Nazim Husain Al Jafri**

इस यूनिवर्सिटी को हुकूमत 30प्र0 ने सरकारी गज़ट में जारी नोटिफिकेशन बतारीख 28 फरवरी 2009 के तहत 30प्र0 उर्दू अरबीफारसी यूनिवर्सिटी के नाम से कायम करने का फैसला किया। बतारीख 5 मार्च 2010 को जारी की गई सरकारी गज़ट नोटिफिकेशन के तहत 30प्र0 प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1973 में तरमीम करके इस यूनिवर्सिटी का नाम रियासती यूनिवर्सिटियो की फहरिस्त में शामिल किया गया। बतारीख 4 अप्रैल 2011 के गज़ट नोटिफिकेशन के तहत यूनिवर्सिटी का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू अरबीफारसी यूनिवर्सिटी रखा गया।

हुकूमत 30प्र0 ने जनाब अनीस अंसारी, आई.ए.एस. (रिटायर्ड) साबिक एग्रिकल्चर प्रोडक्शन कमिशनर बतारीख 23 अप्रैल 2010 को अक्वलीन वाइस चांसलर की हैसियत से तक्रूरी दी। स्पेशल सिक्रेट्री आला तालीम को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इज़ाफ़ी काम दिया गया। इस वक़्त फाइनेंस आफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, मुआविन रजिस्ट्रार और आफिसर आन स्पेशल इयूटी के ओहदों पर मुतअल्लिका अफसरान काम कर रहे हैं।

यूनिवर्सिटी का कैम्पस सीतापुर-हरदोई रोड बाईपास पर इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट के कैम्पस के करीब वाके है। फिलहाल 30 एकड़ ज़मीन मुहय्या की गई है। बाईपास की जानिब तक्रूरीबन 32 एकड़ और दूसरी जानिब तक्रूरीबन 150 एकड़ ज़मीन हासिल करने की अलग से कार्रवाई की जा रही है। 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम तामीर का काम कर रहे हैं। पहले मरहले में 188 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मन्ज़ूर किया गया है जिसमें एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, गेस्ट हाउस, तलबा व तालिबात के लिये हास्टल, लाइब्रेरी और तालिब इल्मों के लिये कैफेटेरिया, बैंक और पोस्ट आफिस जैसी ज़रूरी सहूलतों की तामीर का काम चल रहा है। हुकूमत 30प्र0 ने अब तक 171 करोड़ रुपये की रकम जारी कर दी है और 17 करोड़ रुपये की बकिया रकम पहली सप्लीमेन्ट्री में मिलने की तवक्को है। दूसरे और तीसरे मरहले में बकिया इमारतों की तामीर की तजवीज़ें हुकूमत 30प्र0 को भेजी जा रही हैं।